

Ref: ISD/22-23/72

May 31, 2022

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code 532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madam/Sir,

Subject: Submission of Newspaper Advertisement - Notice of Annual General Meeting of the Bank to be held through VC/OAVM.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) and intimation of cut-off date published in following newspapers on May 31, 2022:

Particulars	Newspaper	Language	Editions
Notice of Annual General Meeting to be held through VC/OAVM	Business Standard	English	All
	The Free Press Journal	English	All
	Business Standard	Hindi	All
	Navshakti	Marathi	Mumbai

The same is also made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

This is for your information and appropriate dissemination.

Thanking you.

Yours faithfully,



(S. K. Dash)
Company Secretary

Encl: As above



COSMO FILMS
Engineered to Enhance
COSMO FILMS LIMITED
Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950
E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
SUBJECT: REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/ UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE IEPF AUTHORITY
Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared for the financial year 2014-15, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on or after 12th September, 2022. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is specific order of Court/Tribunal restraining transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and details of shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link <https://www.cosmofilms.com/shareholders-information> to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year 2014-15 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website <http://www.iepf.gov.in>) and no claim shall lie against the company.

In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before 9th September, 2022 the Company shall credit those shares/dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF authority.

For any queries on the subject matter, you may e-mail us at investor.relations@cosmofilms.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent, Alankit Assignments Limited at 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, Email: rt@alankit.com.

For Cosmo Films Limited
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 30th May, 2022



EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE /CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER /YEAR ENDED 31 MARCH, 2022

(Rs. in Lakhs except EPS)

Particulars	Standalone		Consolidated			
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended		
	31-Mar-22	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21		
Total Income from operation	20,174.61	20,669.19	69,308.73	59,346.22	72,108.98	60,673.80
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended (before tax, exceptional/extraordinary item)	920.15	1,680.59	4,253.68	4,303.92	4,225.18	4,386.08
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended before tax (after exceptional/extraordinary item)	920.15	1,680.59	4,253.68	4,303.92	4,225.18	4,386.08
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended after tax (after exceptional/extraordinary item)	767.11	945.16	3,181.42	2,933.74	3,145.68	2,989.90
Total Comprehensive Income for the quarter/year ended (Net of Tax)	839.75	957.37	3,254.06	2,945.95	3,218.32	3,002.11
Equity Share Capital	2,857.05	1,428.53	2,857.05	1,428.53	2,857.05	1,428.53
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	25,288.89	23,749.05	25,343.12	23,840.25	
Earning per Share (in Rs.)						
Basic	2.68	3.42	11.14	10.60	11.01	10.71
Diluted	2.68	3.42	11.14	10.60	11.01	10.71

Notes:

- The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Results are available on the stock exchange websites viz. www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.salasartechno.com.
- The above audited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 30th May 2022. These results have been audited by the Statutory Auditor of the Company who has issued an unqualified opinion thereon.
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other recognized accounting practice and policies to the extent applicable.
- The Board of Directors of the Company at its meeting held on 30-May-2022 have recommended a final dividend of 10.00% of face value as on record date for the financial year 2021-22, which is subject to the approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

For Salasar Techno Engineering Ltd.

Sd/-
Alok Kumar
Managing Director
DIN : 01474484

Date: 30.05.2022
Place: Hapur



SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED

CIN: L23201DL2001PLC174076

Regd office: E-20, South Extension I, New Delhi-110049. Tel: +91-11-41648566/8577;
E-mail id: compliance@salasartechno.com, Website: www.salasartechno.com



Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021. Website: www.unionbankofindia.co.in
Email: investorservices@unionbankofindia.bank

NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM AND INTIMATION OF CUT-OFF DATE

Dear Shareholder,
NOTICE is hereby given that the 20th (Twentieth) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on **Thursday, June 30, 2022 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility.

In view of the continuing CoVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs(MCA) vide circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 15th June, 2020, 28th September 2020, 31st December 2020, 13th January 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the above guidelines, the AGM of the Bank will be held through VC/OAVM.

The Shareholders are further informed that:

- The Notice of the AGM and the Annual Report including the financial statements for the year ended on March 31, 2022 will be sent only by email to all those shareholders, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- The instructions for joining the AGM and the manner for participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the detailed Notice of the AGM.
- The Annual Report along with Notice of AGM will also be hosted on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and the website of BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com.
- In case you have not registered your email address and / or not updated your bank account mandate for receipt of dividend with the Bank or Depository Participant, please follow below instructions to register your email ID / bank account:

Physical Shareholding	Prescribed Form ISR-1 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 at the following address: Datamatics Business Solutions Ltd., Unit: Union Bank of India, Plot No. B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 093. You may also send scanned copy of the request letter to ubinvestors@datamaticsbpm.com The said form are available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) with whom you are maintaining the demat account and register your email address as per the process advised by your DP.

- The shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink – <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> The detailed process of participating in the AGM through VC / OAVM is also given in the Notice of the AGM.
- The bank shall dispatch the dividend warrants in due course to those shareholders who have not registered / updated their bank account mandate.
- Bank has fixed Thursday, 23rd June 2022 as the Cut-off date for E-Voting and for determining entitlement of members to dividend for FY 2021-22, if approved at the AGM.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Sd/-
S. K. Dash
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 30.05.2022

ŠKODA Auto Volkswagen India Private Limited

(Formerly known as Volkswagen India Private Limited)

Registered office: E-1, MIDC Industrial Area Phase III, Nigoje Mhalunge, Kharabwadi, Chakan, Khed, Pune, Maharashtra, 410501
CIN: U70102PN2007FTC133117; T: +91 02135 61000 / 331000 F: +91 02135 661049
Email id: anoopkumar.pillai@skoda-vw.co.in Website: www.skoda-vw.co.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(in INR million)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year ended	
		March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
		(Unaudited) Refer note 5	(Unaudited)	(Unaudited) Refer note 5	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	43,585.50	36,903.26	21,368.08	138,390.76	87,041.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,055.35	801.75	371.82	2,984.49	2,880.04
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,847.13	835.50	413.00	3,885.29	3,123.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,823.36	431.94	5,561.09	2,083.40	7,737.98
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,096.98	1,121.68	8,224.72	3,268.00	7,023.57
6	Paid-up equity share capital (Face Value R. 10 each)	7,240.45	7,240.45	7,240.45	7,240.45	7,240.45
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	41,503.32	40,273.59	38,235.32	41,503.32	38,235.32
8	Net Worth	48,743.77	47,514.04	45,475.77	48,743.77	45,475.77
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	NA	NA	NA	NA
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	971,724,552	971,724,552	971,724,552	971,724,552	971,724,552
11	Debt Equity Ratio	0.46	0.47	0.31	0.46	0.31
12	Earnings Per Share in Rupees (for continuing and discontinued operations - not annualised for Half Year period) Basic & Diluted :	2.52	0.60	7.68	2.88	10.69
13	Category 'A' Equity Shares	222,420,477	222,420,477	222,420,477	222,420,477	222,420,477
14	Category 'B' Equity Shares	501,625,161	501,625,161	501,625,161	501,625,161	501,625,161
15	Capital Redemption Reserve	1,858.04	1,858.04	1,858.04	1,858.04	1,858.04
16	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
17	Debt Service Coverage Ratio	0.32	0.62	0.26	0.73	1.84
18	Interest Service Coverage Ratio	4.92	3.60	2.41	3.98	3.33

Notes:

- SKODA Auto Volkswagen India Private Limited (the 'Company') has prepared financial results in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time and other accounting principles generally accepted in India.
- These financial results have been prepared in accordance with the requirements of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and yearly financial results are available on the websites of the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.skoda-vw.co.in.
- These financial results have been reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2022. The results for the year ended March 31, 2022 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
- a) The financial results for the quarter ended 31 March 2022 are balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited figures for the nine months ended 31 December 2021, which were subjected to limited review by statutory auditors.
b) The figures for the corresponding quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the unaudited figures up to nine months ended 31 December 2020, which have been approved by the Company's Board of Directors but have not been subjected to audit or review.

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-
Piyush Arora
Managing Director

DIN: 06991008

Place: Pune
Date : May 30, 2022

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost and the holder of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	Name of Share holder	Distinctive Nos. From To	Certificate No.	No. of Shares
0000040	Suresh Mittal-HUF	40791 41790	59	1000
0000040	Suresh Mittal-HUF	1618751 1643750	122	25000

Name of Shareholder - Mr. Suresh Mittal-HUF
 Dated: 30th May 2022
Name and Registered Office address of Company :
 Mega Fin (India) Ltd,
 17th Floor, A-Wing, Mittal Tower,
 Nariman Point, Mumbai 400021, India

HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

Hutatma Chowk, Fort, Mumbai-400 032
Tender Notice No. HIGH COURT/LAPTOPS/298/2022
 Dated : 26/05/2022

The High Court of Judicature at Bombay invites online bids (Technical & Financial) from eligible bidders which are valid for a minimum period of 180 days from the date of opening of bids (i.e., 21/06/2022) for "The Supply, Testing, Installation, Commissioning and Maintenance of Convertible Laptops for Judicial Officers in the State of Maharashtra."

The prospective bidders desirous of participating in this tender may submit their written queries to the undersigned on or before 06/06/2022 at 04.00 p.m. by email at cpb-bom@ajj.gov.in with subject line "Pre-bid queries in respect of convertible Laptops". Based on queries received, the High Court may amend the Tender/issue Corrigendum, if required. Inputs/suggestions/queries submitted by Bidders as a part of the pre-bid meeting or otherwise shall be given due consideration. However, die High Court is neither mandated to accept any submission made by the Bidder nor the Bidder shall be given any written response to their submissions. If an input is considered valid, the same shall be accepted and incorporated as part of the Corrigendum.

Considering the pandemic situation at the relevant time, a pre-bid may be conducted through Video conferencing for which the required web link and time will be communicated to the bidder who has sent their queries. A link will be also published on website of the Bombay High Court. The bidder who wants to join it, has to send Identity card letter through email, for the person who will join the video conferencing meeting. The attendance on Video conferencing will be marked as per list of participant. While joining die meeting, die name of person who will join along with name of firm for whom he will join shall be displayed. While conducting meeting, the participants shall maintain etiquette, if failed then he will be quit from the meeting.

Interested parties may view and download the Tender document containing the detailed terms & conditions, from the Websites viz. <http://mahatenders.gov.in> and <http://bombayhighcourt.nic.in>.

Sd/-
Registrar General
 High Court, Bombay
 DGIPR 2022-23/919



Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **Website:** www.unionbankofindia.co.in
Email: investorservices@unionbankofindia.bank

NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM AND INTIMATION OF CUT-OFF DATE

Dear Shareholder,
 NOTICE is hereby given that the **20th (Twentieth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("Bank") will be held on **Thursday, June 30, 2022 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility.

In view of the continuing CoVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs(MCA) vide circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 15th June, 2020, 28th September 2020, 31st December 2020, 13th January 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the above guidelines, the AGM of the Bank will be held through VC/OAVM.

The Shareholders are further informed that:

- The Notice of the AGM and the Annual Report including the financial statements for the year ended on March 31, 2022 will be sent only by email to all those shareholders, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- The instructions for joining the AGM and the manner for participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the detailed Notice of the AGM.
- The Annual Report along with Notice of AGM will also be hosted on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and the website of BSE www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- In case you have not registered your email address and / or not updated your bank account mandate for receipt of dividend with the Bank or Depository Participant, please follow below instructions to register your email ID / bank account:

Physical Shareholding	Prescribed Form ISR-1 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MRSD/MRSD-RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 at the following address: Datamatics Business Solutions Ltd., Unit: Union Bank of India, Plot No. B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 093. You may also send scanned copy of the request letter to ubiinvestors@datamaticsbpm.com . The said form are available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) with whom you are maintaining the demat account and register your email address as per the process advised by your DP.

- The shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink – <https://iris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobilemailreg.aspx>. The detailed process of participating in the AGM through VC / OAVM is also given in the Notice of the AGM.
- The bank shall dispatch the dividend warrants in due course to those shareholders who have not registered / updated their bank account mandate.
- Bank has fixed Thursday, 23rd June 2022 as the Cut-off date for E-Voting and for determining entitlement of members to dividend for FY 2021-22, if approved at the AGM.

By order of the Board of Directors
 For UNION BANK OF INDIA
 Sd/-
S. K. Dash
 Company Secretary
 Place: Mumbai
 Date: 30.05.2022

HIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

CIN: L70100MH1988PLC049929
 Regd(O) : Office No. 48, Gr. Floor, 'Evershine Mall PCL Ltd, Link Road, Malad (West) Mumbai -400064
 Email: hitkitglobal@gmail.com Website: hitkitglobal.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED ON MARCH 31, 2022

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31-03-2022	31-12-2021	31-03-2021	31-03-2022	31-03-2021
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
I. Income					
Revenue from Operations	13.85	4.84	9.40	28.74	21.28
Other Income	11.74	-	4.61	11.74	16.14
Total Income	25.59	4.84	14.01	40.48	37.42
II. Expenses					
Cost of Materials Consumed	-	-	15.48	-	15.48
Purchase of stock in trade	6.75	3.69	(9.01)	17.47	-
Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-Trade	-	-	-	-	-
Employee Benefits Expense	0.87	1.71	1.35	5.90	4.51
Finance costs	-	-	-	-	0.19
Depreciation, Amortisation and Depletion Expenses	0.00	0.01	0.01	0.02	0.06
Other Expenses	15.08	4.73	5.81	29.77	16.31
Total Expenses	22.70	10.14	13.64	53.16	36.55
III. Profit / (Loss) before exceptional items and tax	2.89	(5.30)	0.37	(12.69)	0.88
IV. Exceptional item					
V. Profit before Tax	2.89	(5.30)	0.37	(12.69)	0.88
VI. Tax Expense	(3.32)	0.28		(3.32)	(0.00)
- Current Tax	-	0.28	-	-	-
- Short / (Excess) provision of Previous Year	(3.32)	-	-	(3.32)	(0.00)
- Deferred Tax	-	-	-	-	-
VII. Profit for the Period	6.21	(5.58)	0.37	(9.37)	0.88
Other comprehensive income (after tax)					
Total Comprehensive Income for the Period	6.21	(5.58)	0.37	(9.37)	0.88
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.2/- Each)	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
Other Equity				219.975	229.345
Earnings per Equity Share (Face Value Rs. 2) (Not annualised)					
(a) Basic	0.0168	(0.0151)	0.0010	(0.0253)	0.0024
(b) Diluted	0.0168	(0.0151)	0.0010	(0.0253)	0.0024

- Notes**
- The Audited financial results for the 4th quarter & year ended 31st March, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May 2022. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion. The Financial Results are prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
 - The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and unaudited published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.
 - The Company has only one reportable segment i.e Trading. In accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS 108).
 - The Figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary.

For Hit Kit Global Solutions Limited
 Sd/-
(Kamal Agrawal)
 Managing Director
 DIN NO.: 07646000
 Place: Mumbai
 Date: 30-05-2022

CANDOUR TECHTEX LIMITED

(Formerly known as Chandni Textiles Engineering Industries Limited)
 CIN: L25209MH1986PLC041119
 REGISTERED OFFICE: 110, T. V. INDUSTRIAL ESTATE, 52, S. K. AHIRE MARG, WORLI, MUMBAI – 400030

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2022

Rs. (in lakhs) except for Earnings Per Share

PARTICULARS	For the Quarter ended			Year Ended	
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations (NET)	5758.99	4099.31	2503.86	17578.37	7079.56
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	60.16	113.81	2.15	243.98	10.56
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.16	113.81	17.08	243.98	119.03
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	49.46	72.01	21.35	174.99	110.35
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	50.46	72.01	21.43	175.99	110.44
Equity Share Capital (Face value of Rs10/- per share)	1613.73	1613.73	1613.73	1613.73	1613.73
Other equity (excluding revaluation reserve)				945.35	449.36
Earnings Per Share (before Extra-ordinary items)					
Basic:	0.31	0.45	0.01	1.08	0.01
Diluted:	0.31	0.45	0.01	1.08	0.01
Earnings Per Share (after Extra-ordinary items)					
Basic:	0.31	0.45	0.13	1.08	0.68
Diluted:	0.31	0.45	0.13	1.08	0.68

- NOTES:**
- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee, for approval by the Board, at its meeting held on 30th May, 2022 and were approved and taken on record at the Meeting of the Board of Directors of the Company held on that date.
 - The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 05, 2016.
 - The company's management has made an assessment of the impact of COVID 19 in preparation for these financial results. The management has considered all relevant external and internal factors in the measurement of assets and liabilities including recoverability of carrying values of its assets, its liquidity position and ability to repay debts. No adjustment to key estimates and judgements that impact the financial results have been identified. However, the impact and assessment of COVID 19 will be a continuing process given the uncertainties associated with its nature and duration and no significant impact is envisaged on the operations.
 - The name of the Company was changed from Chandni Textiles Engineering Industries Limited to Candour Techtext Limited on 4th February, 2022.
 - The Company has made preferential allotment of 8,00,000 equity shares of the face value of Rs.10/- each at a premium of Rs.40/- per share on 25-3-2022 and these shares were listed on the stock exchanges on 9th May, 2022.
 - Figures for previous quarters / year have been regrouped / restated where necessary.
 - The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone financial results are available on the websites of BSE and MSEI at www.bseindia.com and www.mseil.in respectively and on the Company's website at www.cteil.com.

By order of the Board
 For Candour Techtext Limited
 J.R. Mehta
 Managing Director
 (DIN: 00193029)
 Place: Mumbai
 Date: 30/05/2022

INDEL MONEY LIMITED

Registered Office: Office No.301, Floor No.3, Sai Arcade N.S Road, Mulund West, Mumbai MH 400080 IN,
 Corporate Office: Indel House, Changampuzha Nagar South Kalamassery Ernakulam 682033 KL IN,
 CIN : U65990MH1986PLC040897, Ph. No. 0484 2933990, Website : www.indelmoney.com Email ID: care@indelmoney.com

Extract of Statement of Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2022

Sl. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended		Year ended	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Revenue from Operations	3,245.99	2,780.42	12,270.31	9,455.42
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	-223.19	632.83	497.55	1,154.36
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	-223.19	632.83	497.55	1,154.36
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	-299.30	418.35	211.23	874.76
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	-326.95	419.25	186.24	878.32
6	Paid Up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	9,314.70	8,214.70	9,314.70	8,214.70
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year (as on 31.03.2021)			546.70	
8	Securities Premium Account as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year (as on 31.03.2021)			Nil	
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic	-0.35	0.51	0.26	1.06
	Diluted	-0.35	0.51	0.26	1.06

Additional disclosures required under Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended
		31.03.2022	31.03.2021
1	Networth (Rs. In Lakh)	10,047.64	8,761.40
2	Paid Up Debt Capital / Outstanding Debt	Nil	Nil
3	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil
4	Debt-Equity Ratio	6.00	4.50
5	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil

- Notes:**
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Securities of the Company are listed and on the website of the Company at www.indelmoney.com
 - The above results have been reviewed by the Audit Committee on 30th May 2022 and approved by the board of directors of Indel Money Limited on 30th May 2022.
 - The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IndAS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by Companies (Indian Accounting Standards) (amended) Rules, 2016.
 - For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges at BSE Limited and can be accessed on the URLs www.bseindia.com.

By and on behalf of the Board of Directors
 For Indel Money Limited
 Mohanan Gopalakrishnan
 Managing Director
 (DIN: 02456142)
 Place: Mumbai
 Date: 30.05.2022

EPIC ENERGY LIMITED

Regd Office: Office No. 2, Sal Pooja Apartment, Plot No. 374, Sector 19C, Kopar Khairane, Navi Mumbai-400709 Maharashtra, CIN: L67120MH1991PLC063103
 Email: info@epicenergy.biz • Tel.: +91-22-8419988262

Extract of Audited Financial results for The Quarter & Year Ended 31st March, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
		31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
(1)	Total Income from operations (net)	25.08	140.08	58.07
(2)	Net Profit (+)/Loss (-) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(22.47)	(48.53)	(5.65)
(3)	Net Profit (+)/Loss (-) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(22.47)	(48.53)	(5.65)
(4)	Net Profit (+)/Loss (-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.86)	(44.47)	(3.38)
(5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(20.86)	(44.47)	(3.38)
(6)	Equity Share capital	721.15	721.15	721.15
(7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet)		(40.05)	4.42
(8)	Earnings Per equity Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)			
	(i) Basic	(0.29)	(0.62)	(0.05)
	(ii) diluted	(0.29)	(0.62)	(0.05)

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (2) The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com)

for EPIC ENERGY LIMITED
 Sd/-
Director
 Mumbai
 28.05.2022

DECCAN GOLD MINES LIMITED

CIN: L51900MH1984PLC034662
 Regd. Off. : The Parinee Crescendo, 803, 8th Flr,Opp.MCA Ground C38-C39, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E) Mumbai-400051 Tel.: 022-33040797
 Fax: 022-26532440 Email: info@deccangoldmines.com Website: www.deccangoldmines.com

Registered Office: Gala No.114, Building No. 8, Jogan Industrial Complex, Chunarbhathi, Mumbai - 400 222.
Tel:022-68252525, Fax: 24057708, Email: compliance@naxparlab.com, Website: www.naxparlab.com CIN: L36912MH1982PLC02925

Extract Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022

Particulars	Standalone		Consolidated		(Rs. in Lacs)
	Current Quarter Ended 31.03.2022	Corresponding Quarter Ended 31.03.2021	Current Quarter Ended 31.03.2022	Corresponding Quarter Ended 31.03.2021	
	Current Year Ended 31.03.2022	Current Year Ended 31.03.2021	Current Year Ended 31.03.2022	Current Year Ended 31.03.2021	
Total Income from Operations (net)	269.24	77.86	731.15	4,811.86	2,057.31
Net Profit/(Loss) from ordinary activities After Tax	43.21	(27.23)	54.15	(15.54)	(310.53)
Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Extraordinary Items and Minority Interest)	43.21	(27.23)	54.15	(15.54)	(309.96)
Equity Share Capital	981.49	850.49	981.49	981.49	850.49
Reserves (Excluding revaluation Reserve as per latest Balance sheet as on 31st March, 2022)	293.46	(379.02)	293.46	3,837.15	2,403.88
Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (of Rs. 10/- each) (Basic and Diluted)	0.51	(0.32)	0.64	(0.18)	(3.65)
Earning Per Share (After Extraordinary Items) (of Rs. 10/- each) (Basic and Diluted)	0.51	(0.32)	0.64	(0.18)	(3.65)

The above is an extract of the detailed format of standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended on March 31, 2022, filed with the stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended on March 31, 2022, are available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.naxparlab.com).

For Parnax Lab Limited
Prakash M Shah
Director & CEO
DIN: 00440980

Place: Mumbai
Date: 30/05/2022

CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

CIN : L51900MH1985PLC037036
Regd. Off. :- Flat No. 12A, 3rd Floor, Embassy Centre, Jammalal Bajaj Marg, Plot No. 207, Nariman Point Mumbai-400021
Contact No. :- +91 81692 45676, Website : www.cressandasolutions.com, Email : cressanda123@gmail.com

Balance Sheet Summary as at 31.03.2022
Extracts of the statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March 2022.

Particulars	Standalone		Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)
	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)		
Total income from operations	4.15	18.48	4.56	4.56
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(5.83)	(0.37)	0.73	0.73
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	21.27	26.73	0.73	0.73
Net Profit / (Loss) for the period after tax	21.27	26.73	0.73	0.73
Paid-up Equity Share Capital (Share of Re. 1/- each)	3,035.78	3,035.78	3,035.78	3,035.78
Earning per equity share				
Basic	0.01	0.01	0.0002	0.0002
Diluted	0.01	0.01	0.0002	0.0002

Note : The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Result for the quarter and year ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

Figures of the previous year have been re-grouped/re-arranged/re-classified wherever considered necessary.
For Cressanda Solutions Limited
Sd/-
Milind Palav
Director
DIN : 08644812

Place : Mumbai
Date : 28/05/2022

मागणी सूचना

एडलवैस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआयएन : २५०१००एमएफ२०००पीसीसी१००५५९
रिटेल सेन्ट्रल आणि नोंदणी कार्यालय : एडलवैस हाऊस, सीएसटी रोड लिनन, कलिंगा, मुंबई - ४०००६८

सिस्कुयुरिटीग्रेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स अँड एफोर्सिबल इन्टेरेट अँड २००२ अन्वये निम्नव्याखरीकृत हे एडलवैस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इंफोआरसी) चे प्राथमिक अधिकारी आहेत. सरदार अंबेडकर कालम १३ (१२) सहायका सिस्कुयुरिटी इन्टेरेट (एफोर्सिबल) कालम, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून प्राथमिक अधिकार्यांनी असेटच्या कालम १३ (२) अन्वये त्यांना जारी केलेल्या मागणी सूचनेत नमूद केलेली रकम जी येथे खाली नमूद केलेली आहे चुकती करण्यासाठी खालील कर्जदारांना बोलावण्यासाठी जारी केलेली आहे. वरील संपादन सरदार कर्जदारांमध्ये निगमित काही असल्यास अन्य दस्तावेज/लिखित सहायका कर्ज कार्यामध्ये देय वसुली आणि/किंवा प्रदानाच्या ताखेवयेतून खालील नमूद ताखेवयेतून सरदार मागणी सूचनेतील नमूद ताखेवयेतून प्रकृत व्याजसह एकत्रित येथे खालील नमूद केलेली रकम सरदार सूचना प्रकृतियामुळे ६० दिवसांत ईश्टासी ला चुकती करण्यासाठी सरदार कर्जदारांना पुन्हा एकदा यादारे सूचना देण्यात येत आहे. कर्जाच्या बंधीत पालनकारिता तात्पल म्णून खालील मस सरदार संबोधित कर्जदारांनी ईश्टासी कडे गहाण देण्याचा आहोत.

अ. क्र.	कर्जदाराचे नाव/ कर्ज खाते क्रमांक	मागणी सूचना तारीख आणि रकम	विषयवत आणि अभिप्रेतकरणात्मक तपसिल
१	१. दीपावली जंगम (कर्जदार) २. मंदार जेठार (कर्जदार) ३. मंगला महादेव जेठार (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए	०२.०५.२०२२ १. १०,१७,६०,९८२.२७	ईश्टासी टुट पसली-११७

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

२. धर्मेश डी गांधी (कर्जदार) २. दिव्या धर्मेश गांधी (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

३. परमेश्वर विस (कर्जदार) २. विनोद मोहित मोदी (कर्जदार) ३. विनोद प्रताप मोदी (कर्जदार) ४. प्रताप मोहित मोदी (कर्जदार) ५. मोहित प्रताप मोदी (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

४. प्रामाणिक रिटल प्रायव्हेट लिमिटेड (कर्जदार) २. राजेश धर्माजी गाला (कर्जदार) ३. पर्याय डेव्हलपर्स प्रा. (कर्जदार) ४. मेघल राजेश गाला (कर्जदार) ५. इरवेंडर धर्माजी गाला (कर्जदार) ६. धर्माजी गाला (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1	Total income from Operations and Others	62.71	80.50	218.40	111.32
2	Net Profit for the Period / Year before Tax**	24.00	48.36	100.41	33.75
3	Tax Expense	-	-	-	7.96
4	Net Profit for the Period / Year after Tax**	24.00	48.36	100.41	25.79
5	Other Comprehensive Income (OCI) Remeasurement of (Losses) / Gains on Non Current Investments	(0.41)	0.55	0.36	(102.04)
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period / Year (Comprising of Profit / (Loss) for the Period / Year (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax))	23.59	48.91	100.77	(76.25)
7	Paid up Equity Share Capital of Rs. 5 each	1,471.81	1,471.81	1,471.81	1,471.81
8	Reserves excluding Revaluation Reserves as per the Audited Balance Sheet	(1,169.31)	(1,270.08)	(1,169.31)	949.28
9	Earning per Share (a) Basic (b) Diluted	0.08 (not annualised)	0.16 (not annualised)	0.09 (not annualised)	0.12 (not annualised)

Place: Mumbai
Date: 30th May 2022

The spirit of Mumbai is now 93 years old!

THE FREE PRESS JOURNAL

www.freepressjournal.in

आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड

(पूर्वी कॅंपीटल फर्स्ट लिमिटेड एकत्रित सह आयडीएफसी बँक लिमिटेड आणि आता आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड अशी जात) सीआयएन: एएएए११०टीएफ२०११पीसीसी१००५५९ नोंदणीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर, ८वा मजला, हॉस्पिटल रोड, चेपेर, चेन्नई-६०००३१.
दू. : +९१ ४४ ४६६४ ४०००, फॅक्स : +९१ ४४ ४६६४ ४०२२.

(सिस्कुयुरिटीग्रेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स अँड एफोर्सिबल इन्टेरेट अँड २००२ अन्वये निम्नव्याखरीकृत हे एडलवैस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इंफोआरसी) चे प्राथमिक अधिकारी आहेत. सरदार अंबेडकर कालम १३ (१२) सहायका सिस्कुयुरिटी इन्टेरेट (एफोर्सिबल) कालम, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून प्राथमिक अधिकार्यांनी असेटच्या कालम १३ (२) अन्वये त्यांना जारी केलेल्या मागणी सूचनेत नमूद केलेली रकम जी येथे खाली नमूद केलेली आहे चुकती करण्यासाठी खालील कर्जदारांना बोलावण्यासाठी जारी केलेली आहे. वरील संपादन सरदार कर्जदारांमध्ये निगमित काही असल्यास अन्य दस्तावेज/लिखित सहायका कर्ज कार्यामध्ये देय वसुली आणि/किंवा प्रदानाच्या ताखेवयेतून खालील नमूद ताखेवयेतून सरदार मागणी सूचनेतील नमूद ताखेवयेतून प्रकृत व्याजसह एकत्रित येथे खालील नमूद केलेली रकम सरदार सूचना प्रकृतियामुळे ६० दिवसांत ईश्टासी ला चुकती करण्यासाठी सरदार कर्जदारांना पुन्हा एकदा यादारे सूचना देण्यात येत आहे. कर्जाच्या बंधीत पालनकारिता तात्पल म्णून खालील मस सरदार संबोधित कर्जदारांनी ईश्टासी कडे गहाण देण्याचा आहोत.

अ. क्र.	कर्जदाराचे नाव/ कर्ज खाते क्रमांक	कर्जाचा प्रकार	कर्जदार आणि सह-कर्जदारांचे नाव	कालम १३(२) सूचनेची तारीख	कालम १३(२) सूचनेनुसार बंधीत रकम	मिळकतीचा पत्ता
१	१. दीपावली जंगम (कर्जदार) २. मंदार जेठार (कर्जदार) ३. मंगला महादेव जेठार (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए	मिळकत सापेक्ष कर्ज आणि व्होलेट भांडवल	१. विरदोबा के. डे २. अनिमा विरदोबा डे	२३.०५.२०२२	४८८०००.०७/-	सोनीला वाडी, नेरुवक रोड, डोंबिवली (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे येथे स्थित श्री राम को-अपार्टमेंट्स हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड अशा जात इमारतीमधील मोबायल ६५० चौ. फू. बिल्ड-अप क्षेत्र (६०.४१ चौ. मी.), चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. बी/२४.

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

२. धर्मेश डी गांधी (कर्जदार) २. दिव्या धर्मेश गांधी (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

३. परमेश्वर विस (कर्जदार) २. विनोद मोहित मोदी (कर्जदार) ३. विनोद प्रताप मोदी (कर्जदार) ४. प्रताप मोहित मोदी (कर्जदार) ५. मोहित प्रताप मोदी (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

४. प्रामाणिक रिटल प्रायव्हेट लिमिटेड (कर्जदार) २. राजेश धर्माजी गाला (कर्जदार) ३. पर्याय डेव्हलपर्स प्रा. (कर्जदार) ४. मेघल राजेश गाला (कर्जदार) ५. इरवेंडर धर्माजी गाला (कर्जदार) ६. धर्माजी गाला (कर्जदार) कर्ज खाते क्र. एएएएएएएएएएएएएएएएएए

पसल क्र. ११५, मोबायल अंदाजे ५००० चौ.फू. चर्दई रोड, ५०.१५ चौ.मीटरची संलग्न, १ ला मजला, विलसा कुंज को ऑफ हाऊसिंग सोसायटी, ईशिस हॉस्पिटल बिल्डिंग, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८८, सीटीएस क्र. ६१६ (भाग), सवई क्र. २३७ (भाग), सवई ४०० ०८२ चे सर्व ते भाग आणि विभाग. सीमाबद्ध पुरविल्यामध्ये: उत्तर: सारान, दक्षिण: आली रोड, पूर्व: येत प्राड, पश्चिम: आली रोड

Place: Mumbai
Date: 28/05/2022

HYBRID FINANCIAL SERVICES LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS MARFATAL FINANCE COMPANY LIMITED)
CIN No. L69990MH1986PLC041277
Regd. Office: 35 A-Wing, Raj Industrial Complex Premises Co-operative Society Limited, Military Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059.

Extract of the Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2022 (Rs in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)	Quarter Ended 31/03/2022 (Audited)	Year Ended 31/03/2022 (Audited)
1	Total income from Operations and Others	62.71	80.50	218.40	111.32
2	Net Profit for the Period / Year before Tax**	24.00	48.36	100.41	33.75
3	Tax Expense	-	-	-	7.96
4	Net Profit for the Period / Year after Tax**	24.00	48.36	100.41	25.79
5	Other Comprehensive Income (OCI) Remeasurement of (Losses) / Gains on Non Current Investments	(0.41)	0.55	0.36	(102.04)
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period / Year (Comprising of Profit / (Loss) for the Period / Year (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax))	23.59	48.91	100.77	(76.25)
7	Paid up Equity Share Capital of Rs. 5 each	1,471.81	1,471.81	1,471.81	1,471.81
8	Reserves excluding Revaluation Reserves as per the Audited Balance Sheet	(1,169.31)	(1,270.08)	(1,169.31)	949.28
9	Earning per Share (a) Basic (b) Diluted	0.08 (not annualised)	0.16 (not annualised)	0.09 (not annualised)	0.12 (not annualised)

** There was no Exceptional / Extraordinary Items during the Quarter and Year Ended 31st March 2022
Note: The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2022 are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

Place: Mumbai
Date: 30th May 2022

RENAISSANCE GLOBAL LIMITED

Regd Office : Plot Nos. 36A & 37, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096.
AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		Mar 31, 2022 Audited	Dec 31, 2021 Unaudited	Mar 31, 2021 Audited	Mar 31, 2022 Audited
1	Total Income from Operations (net)	53,629.27	77,494.58	58,424.03	2,20,872.77
2	Net Profit before tax and Exceptional Items	2,091.82	5,053.09	1,957.21	13,646.82
3	Net Profit after tax and Exceptional Items	2,135.35	3,299.62	1,568.19	10,645.07
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	13.59	3,087.02	1,733.06	8,031.36
5	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	1,887.94	1,868.30	1,868.30	1,887.94
6	Earning Per Share EPS (of ₹ 10/- each not annualised)	11.26	17.83	8.17	56.49
7	Continuing Operations Basic Diluted	11.17	17.36	8.09	56.03
8	Discontinued Operations Basic Diluted	0.04	-0.01	-0.04	-2.13
9	Continuing and Discontinued Operations Basic Diluted	11.30	17.82	8.12	56.49
10		11.21	17.35	8.06	56.03

NOTES:
1. The above Audited Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 30, 2022.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / yearly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financials results are available on the websites of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.renaissanceglobal.com.
3. Key numbers of Standalone Results are as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	Mar 31, 2022 Audited	Dec 31, 2021 Unaudited	Mar 31, 2021 Audited	Mar 31, 2022 Audited
Revenue	33,617.77	48,379.54	28,339.60	1,52,921.36
Profit Before Tax	16.04	2,365.55	435.01	5,824.49
Profit After Tax	126.19	1,341.36	524.25	3,890.38
Total Comprehensive income for the period after tax	(754.56)	1,245.16	568.14	3,397.54

Place : Mumbai
Date : 30/05/2022

SBI State Bank of India
स्टेज असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इंफोआरसी) चे प्राथमिक अधिकारी आहेत. सरदार अंबेडकर कालम १३ (१२) सहायका सिस्कुयुरिटी इन्टेरेट (एफोर्सिबल) कालम, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून प्राथमिक अधिकार्यांनी असेटच्या कालम १३ (२) अन्वये त्यांना जारी केलेल्या मागणी सूचनेत नमूद केलेली रकम जी येथे खाली नमूद केलेली आहे चुकती करण्यासाठी खालील कर्जदारांना बोलावण्यासाठी जारी केलेली आहे. वरील संपादन सरदार कर्जदारांमध्ये निगमित काही असल्यास अन्य दस्तावे